



संख्याओं के प्रतिशत की गणना करें

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$99 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$24 \times 30\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$2 \times 60\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$98 \times 60\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$75 \times 10\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$49 \times 30\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$33 \times 10\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$46 \times 30\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$38 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$33 \times 80\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$79 \times 60\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$28 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$90 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$66 \times 20\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$12 \times 40\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$62 \times 80\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$10 \times 50\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$57 \times 40\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$76 \times 70\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$35 \times 10\% = \underline{\hspace{2cm}}$



संख्याओं के प्रतिशत की गणना करें

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$99 \times 90\% = 89.1$$

$$24 \times 30\% = 7.2$$

$$2 \times 60\% = 1.2$$

$$98 \times 60\% = 58.8$$

$$75 \times 10\% = 7.5$$

$$49 \times 30\% = 14.7$$

$$33 \times 10\% = 3.3$$

$$46 \times 30\% = 13.8$$

$$38 \times 90\% = 34.2$$

$$33 \times 80\% = 26.4$$

$$79 \times 60\% = 47.4$$

$$28 \times 90\% = 25.2$$

$$90 \times 90\% = 81$$

$$66 \times 20\% = 13.2$$

$$12 \times 40\% = 4.8$$

$$62 \times 80\% = 49.6$$

$$10 \times 50\% = 5$$

$$57 \times 40\% = 22.8$$

$$76 \times 70\% = 53.2$$

$$35 \times 10\% = 3.5$$